

הַמָּוֹת	בְּיוֹם	שְׁלוֹטוֹן	וְאִין	הַרוּחַ	אֶת-	לְכַלּוֹא	בְּרוּחַ	שְׁלִיט	אֲדָם	אִין	8
मृत्यु-के	दिन-में	अधिकार	और-नहीं-है	साँस-को	—	रोकने-को	साँस-पर	अधिकारी	मनुष्य	नहीं-है	
H4194	H3117	H7983	H0369	H7307	H0853	H3607	H7307	H7989	H0120	H0369	
		בְּעֵלְיוֹ:	אֶת-	רָשַׁע	יְמִלֵּט	וְלֹא-	בְּמִלְחָמָה	מְשַׁלַּחַת	וְאִין	और-नहीं-है	
		अपने-मालिकों-को	—	दुष्टता	छुड़ाएगा	और-नहीं-	युद्ध-में	छुट्टी	और-नहीं-है		
		H1167	H0853	H7562	H4422	H3808	H4421	H4917	H0369		

आत्मा को इस देह को छोड़कर जाने से कोई नहीं रोके रख सकता है। अपनी मृत्यु को रोक दें, ऐसी शक्ति तो किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जब युद्ध चल रहा हो तो किसी भी सैनिक को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह जहाँ चाहे वहाँ चला जाये। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह पाप उस व्यक्ति को स्वतंत्रत नहीं रहने देता।

נֶעֱשָׂה	אֲשֶׁר	מְעֵשֶׂה	לְכָל-	לְבִי	אֶת-	וְנָתַן	רְאִיתִי	זֶה	כָּל-	אֶת-	9
किया-जाता-है	जो	कार्य-पर	सब-	अपना-मन	—	और-लगाया	मैंने-देखा	यह	सब-	—	
		H4639	H3605		H0853	H5414	H7200	H2088	H3605	H0853	
	לֹא:	לְרַע	בְּאָדָם	הָאָדָם	שְׁלֹט	אֲשֶׁר	עֵת	הַשָּׁמֶשׁ	תַּחַת	नीचे	
	उसे	बुराई-के-लिए	मनुष्य-पर	मनुष्य	शासन-करता-है	जब	समय	सूर्य-के			
			H0120	H0120	H7980		H6256	H8121	H8478		

मैंने ये सब बातें देखी हैं। इस जगत में कुछ घटता है उन बातों के बारे में मैंने बड़ी तीव्रता से सोचा है और मैंने देखा है कि लोग दूसरे व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति पाने के लिये सदा संघर्ष करते रहते हैं और लोगों को कष्ट पहुँचाते रहते हैं।

וּשְׁתַּכְּחוּ	יְהִלְכוּ	קָרוֹשׁ	וּמְמַקֹּם	וְבָאוּ	קְבָרִים	רְשָׁעִים	רְאִיתִי	וּבְכֵן	10	
और-वे-भुला-दिए-गए	वे-गए	पवित्र	और-स्थान-से	और-वे-आए	दफनाए-हुए	दुष्टों-को	मैंने-देखा	और-इसी-तरह		
H7911	H1980	H6918	H4725	H0935	H6912	H7563	H7200			
			הַקְּבָל:	זֶה	גַּם-	עָשׂוּ	כִּין-	אֲשֶׁר	בְּעִיר	
			व्यथता	यह	यह-भी-	उन्होंने-किया	वैसा-	जहाँ	नगर-में	
			H1892	H2088	H1571					

मैंने उन बुरे व्यक्तियों के बहुत सजे धजे और विशाल शव—यात्रायें देखी हैं जो पवित्र स्थानों में आया जाया करते थे। शव— यात्राओं की क्रियाओं के बाद लोग जब घर लौटते हैं तो वे जो बुरा व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहा करते हैं और ऐसा उसी नगर में हुआ करता है जहाँ उसे बुरे व्यक्ति ने बहुत—बहुत बुरे काम किये हैं। यह अर्थहीन है।

לֵב	מָלֵא	לִי	עַל-	מְהֵרָה	הָרַעָה	מְעֵשֶׂה	פְּתָנָם	נֶעֱשָׂה	אִין-	אֲשֶׁר	11
मन	भरा-है	इसलिए	इसलिए-	जल्दी	बुरे	कार्य-के-विरुद्ध	फैसला	दिया-जाता-है	नहीं-	क्योंकि	
	H4390			H4120		H4639	H6599		H0369		
						רָע:	לְעֲשׂוֹת	בָּהֶם	הָאָדָם	בְּנֵי-	
						बुराई	करने-को	उनमें	मनुष्य-के	पुत्रों-का-	
									H0120		

कभी कभी लोगों ने जो बुरे काम किये हैं, उनके लिये उन्हें तुरंत दण्ड नहीं मिलता। उन पर दण्ड धीरे धीरे पड़ता है और इसके कारण दूसरे लोग भी बुरे कर्म करना चाहने लगते हैं।

אֲנִי	יֹדָע	גַּם-	כִּי	לִי	וּמֵאָרְיָה	מֵאֵת	רָע	עֲשָׂה	הַטָּא	אֲשֶׁר	12
मैं	जानता-हूँ	भी-	परन्तु	अपने-लिए	और-लम्बा-करता-है	सौ-बार	बुराई	करता-है	पापी	जो	
H0589	H3045	H1571			H0748	H3967			H2398		
				מִלְפָּנָיו:	יִירָאוּ	אֲשֶׁר	הָאֱלֹהִים	לִירְאוֹ	טוֹב	יְהִי-	אֲשֶׁר
				उसके-सामने-से	डरते-हैं	जो	परमेश्वर-से	डरनेवालों-के-लिए	भलाई	होगा-	कि
				H6440	H3372		H0430	H3372		H1961	

कोई पापी चाहे सैकड़ों पाप करे और चाहे उसकी आयु कितनी ही लम्बी हो किन्तु मैं यह जानता हूँ कि तो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उसका सम्मान करना उत्तम है।

13 וְטוֹב לֹא יְהִי לָךְ לְרַשָּׁע וְלֹא יִאָרֵךְ יָמֶיךָ כַּכֹּל אֲשֶׁר אֵינְנוּ
 और-भलाई और-नहीं- और-नहीं- दुष्ट-के-लिए और-नहीं- वह-लम्बा-करेगा दिनों-को छाया-की-तरह जो वह-नहीं
[H3808](#) [H7563](#) [H3808](#) [H3117](#) [H6738](#) [H0369](#)

יְרֵא מִלְּפָנֵי אֱלֹהִים: זְרָא
 डरता परमेश्वर-के सामने-से
[H3373](#) [H6440](#) [H0430](#)

बुरे लोग परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। सो ऐसे लोग वास्तव में अच्छी वस्तुओं को प्राप्त नहीं करते। वे बुरे लोग अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। उनके जीवन डूबते सूरज में लम्बी से लम्बी होती जाती छायाओं के सामान बड़े नहीं होंगे।

14 יֵשׁ-הָבָל אֲשֶׁר נִעֲשָׂה עַל-הָאָרֶץ וְאֲשֶׁר יֵשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מִנִּיעַ אֱלֹהִים
 है-व्यर्थता जो की-जाती-है पर- पृथ्वी कि हैं धर्मी जिनको पहुँचता-है उनकी
[H3426](#) [H1892](#) [H0776](#) [H6662](#) [H5060](#) [H0413](#)

כַּמְעֻשָׂה הַרְשָׁעִים וְיֵשׁ רָשָׁעִים שְׂמִנִּיעַ אֱלֹהִים כַּמְעֻשָׂה הַצַּדִּיקִים אֲמָרְתִּי
 कार्य-के-अनुसार और-हैं दुष्ट जिनको-पहुँचता-है उनको कार्य-के-अनुसार मैंने-कहा धर्मियों-के
[H4639](#) [H3426](#) [H7563](#) [H5060](#) [H0413](#) [H0559](#) [H6662](#)

שָׁנָם-זֶה הַבָּל: וְהָאֱלֹהִים
 कि-यह-भी- यह व्यर्थता
[H1571](#) [H2088](#) [H1892](#)

इस धरती पर एक बात और होती है जो मुझे न्याय संगत नहीं लगती। बुरे लोगों के साथ बुरे बातें घटनी चाहियें और अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें। किन्तु कभी—कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें घटती है और बुरे लोगों के साथ अच्छी बातें। यह तो न्याय नहीं है।

15 וְשִׁבְחָתִי אֲנִי אֶת-הַשְּׂמֹחָה אֲשֶׁר אֵין-טוֹב לָאָדָם תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ כִּי
 और-मैंने-सराहा मैंने — आनन्द-को क्योंकि नहीं-है- भलाई मनुष्य-के-लिए नीचे सूर्य-के सिवाय-
[H0589](#) [H0853](#) [H8057](#) [H0369](#) [H0120](#) [H8478](#) [H8121](#)

אִם-לֶאֱכֹל וְלִשְׂתוֹת לֶאֱשָׂמוּחַ וְהָיָה אִתּוֹ בְּעֵמְלוֹ יָמָיו חַיָּו
 कि-खाना और-पीना और-आनन्दित-होना और-यह और-देगा-उसे उसके-परिश्रम-में दिनों उसके-जीवन-के
[H0398](#) [H8354](#) [H8055](#) [H1931](#) [H5999](#) [H3117](#)

אֲשֶׁר-נָתַן לוֹ הָאֱלֹהִים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ: כִּי
 जो-दिया-है- उसे परमेश्वर-ने नीचे सूर्य-के
[H5414](#) [H0430](#) [H8478](#) [H8121](#)

सो मैंने निश्चय किया कि जीवन का आनन्द लेना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस जीवन में एक व्यक्ति जो सबसे अच्छी बात कर सकता है वह है खाना, पीना और जीवन का रस लेना। इससे कम से कम व्यक्ति को इस धरती पर उसके जीवन के दौरान परमेश्वर ने करने के लिये जो कठिन काम दिया है उसका आनन्द लेने में सहायता मिलेगी।

16 כַּאֲשֶׁר נָתַתִּי אֶת-לְבִי לְדַעַת חַכְמָה וְלָרְאוֹת אֶת-הָעֵינָיו אֲשֶׁר
 मैंने-लगाया जब अपना-मन अपनी-बुद्धि और-देखने-की कार्य-को जो
[H5414](#) [H0853](#) [H7200](#) [H2451](#) [H3045](#) [H6045](#)

נִעֲשָׂה עַל-הָאָרֶץ כִּי גַם בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה שָׁנָה בְּעֵינָיו אֵינְנוּ רֹאֶה:
 किया-जाता-है पर- पृथ्वी क्योंकि भी दिन-में और-रात-में नींद अपनी-आँखों-में वह-नहीं देखता
[H0776](#) [H3117](#) [H1571](#) [H3915](#) [H8142](#) [H0369](#) [H7200](#)

इस जीवन में लोग जो कुछ करते हैं उसका मैंने बड़े ध्यान के साथ अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि लोग कितने व्यस्त हैं। वे प्रायः बिना सोए रात दिन काम में लगे रहते हैं।

וְרֵאִיתִי אֶת-כָּל-מַעֲשֵׂה הָאֱלֹהִים כִּי לֹא יוּכַל הָאָדָם לְמַצּוֹא אֶת-
 और-मैंने-देखा — सब-कार्य-को परमेश्वर-के नहीं कि सक्ता मनुष्य पाना —
[H0853](#) [H4672](#) [H0120](#) [H3201](#) [H3808](#) [H0430](#) [H4639](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7200](#)

וְלֹא הִמְעָשָׂה אֲשֶׁר נַעֲשָׂה תַּחַת-הַשָּׁמַשׁ בְּשֵׁל אֲשֶׁר יַעֲמֹל הָאָדָם לְבַקֵּשׁ וְלֹא
 और-नहीं कार्य-को जो किया-जाता-है नीचे-कार्य-के जो जो खोजने-को मनुष्य परिश्रम-करे जो क्योंकि सूर्य-के
[H3808](#) [H1245](#) [H0120](#) [H5998](#) [H7945](#) [H8121](#) [H8478](#) [H4639](#)

יִמְצָא וְגַם אִם-יֹאמַר הַחֲכָם לֹא יוּכַל לְמַצּוֹא:
 पाएगा और-भी यदि-कहे बुद्धिमान वह-सकता नहीं जानने-को
[H4672](#) [H3201](#) [H3808](#) [H3045](#) [H2450](#) [H0559](#) [H1571](#) [H4672](#)

परमेश्वर जो करता है उन बहुत सी बातों को भी मैंने देखा है कि इस धरती पर परमेश्वर जो कुछ करता है, लोग उसे समझ नहीं सकते। उसे समझने के लिये मनुष्य बार बार प्रयत्न करता है। किन्तु फिर भी समझ नहीं पाता। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी यह कहे कि वह परमेश्वर के कामों को समझता है तो यह भी सत्य नहीं है। उन सब बातों को तो कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता।